



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

चोरी की योजना बनाते तीन शातिर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा थाना बिसवां क्षेत्र में चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए टीम का गठन कर क्षेत्राधिकारी बिसवां व प्रभारी निरीक्षक बिसवां को घटना को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में गठित थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.10.2020 चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते हुए तीन अभियुक्तगण 1. साजिद अली उर्फ गुड्डू पुत्र अनवर अली निवासी ग्राम सहरी सराय म0 चन्दनमहमूदपुर थाना बिसवां 2. मोईन पुत्र मुस्तफा नि0ग्रा0 सहरी सराय थाना बिसवां 3. सद्दाम पुत्र मुनीम नि0ग्रा0 सहरी सराय म0 चन्दनमहमूदपुर थाना बिसवां, सीतापुर को कस्बा बिसवां में मंशाराम मन्दिर से अमरनगर रोड पर खाली प्लाट की बाउंड्री की आड़ से गिरफ्तार किया है। जिनके पास से थाना को0 बिसवां सीतापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 528/20 धारा 379 भा0द0वि0 से संबंधित चोरी का मोबाइल वन प्लस तथा तीन अवैध तमंचे, 06 कारतूस, एक आला नकब (सब्बल), एक प्लास व एक चाबी का गुच्छा जिसमें कुल छोटी-बड़ी 12 चाबियां हैं, बरामद की गयी है। पूँछताछ पर बताये कि हम लोग मिलकर काफी दिनों से चोरी करते हैं। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी जिससे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

नाम पता अभियुक्त-

1. साजिद अली उर्फ गुड्डू पुत्र अनवर अली निवासी ग्राम सहरी सराय म0 चन्दनमहमूदपुर थाना बिसवां जिला सीतापुर
2. मोईन पुत्र मुस्तफा नि0ग्रा0 सहरी सराय थाना बिसवां जिला सीतापुर
3. सद्दाम पुत्र मुनीम नि0ग्रा0 सहरी सराय म0 चन्दनमहमूदपुर थाना बिसवां जिला सीतापुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 535/2020 धारा 401 IPC बनाम-साजिद उर्फ गुड्डू,मोईन,सद्दाम उपरोक्त
2. मु0अ0सं0 536/2020 धारा 25(1-B) A ACT बनाम साजिद उर्फ गुड्डू उपरोक्त
3. मु0अ0सं0 537/2020 धारा 25(1-B) A ACT बनाम मोईन उपरोक्त
4. मु0अ0सं0 538/2020 धारा 25(1-B) A ACT बनाम सद्दाम उपरोक्त

बरामदगी:-

1. एक मोबाइल वन प्लस रंग नीला
2. दो अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर, 4 अदद कारतूस 315 बोर,
3. एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
4. एक अदद आला नकब(सब्बल) व एक अदद प्लास
5. एक अदद चावी का गुच्छा जिसमें कुल छोटो बडी 12 चाबियां

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री रामेश्वर सिंह,
3. का0 मनेन्द्र सिंह
4. का0 अमित मांगट
5. का0 अमित बालियान,

